



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 288]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

सं. 41/2009-2014 (आर.ई.-2012)

फा. सं. 01/61/180/188/एम 13/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आरई-2012)/2009-2014 में एक नया पैराग्राफ अर्थात् पैरा 3.8.3 तत्काल प्रभाव से जोड़ते हैं :—

"3.8.3. उत्तरोत्तर निर्यात प्रोत्साहन स्कीम हेतु प्रक्रिया

- (क) उत्तरोत्तर निर्यात प्रोत्साहन स्कीम से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.14.4 में दी गई है।
- (ख) इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 3च (इस एएनएफ 3च को बाद में अधिसूचित किया जाएगा) में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। स्कीम के प्रयोजन लिए, निर्यात कारोबार किसी अन्य आई ई सी धारक से अंतरित किए जाने हेतु अनुमत नहीं होगा। चूंकि लाभ, प्राप्ति आधार पर ग्राह्य है, इसलिए आवेदन 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.11.9 के अनुसार होगी तथा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 2009-2014 के पैरा 9.3 के विलम्ब कटौती प्रावधान लागू होंगे।
- (ग) उत्तरोत्तर वृद्धि नामित बाजारों में मुक्त रूप से परिवर्तनशील मुद्रा के अनुसार होनी चाहिए।
- (घ) नामित बाजारों में आगमन के प्रमाण के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.8.2 के प्रावधान लागू होंगे।"

अनुप के पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 28th December, 2012

No. 41/2009-2014 (RE-2012)

F. No. 01/61/180/188/AM 13/PC-3.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby adds a new paragraph i.e. Para 3.8.3 in the Handbook of Procedures, Vol. I (RE-2012)/2009-2014 with immediate effect :—

“3.8.3. Procedure for Incremental Exports Incentivisation Scheme

- (a) The policy pertaining to Incremental Export Incentive Scheme is given in para 3.14.4 of FTP.
- (b) An application for grant of benefit under this scheme shall be filed in ANF 3F (this ANF 3F will be notified subsequently) to RA concerned. For the purpose of the scheme, export performance shall not be allowed to be transferred from any other IEC holder. Since the benefit is admissible on realisation basis, applications can be filed after 1st April, 2013. Last date for filing application will be as per para 3.11.9 of HBP v1 and late cut provisions of para 9.3 of HBP v1 2009-2014 will be applicable.
- (c) Incremental growth should be in terms of freely convertible currency to the designated markets.
- (d) For proof of landing in designated markets, provisions of para 3.8.2 of HBP v1 shall be applicable.”

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade